

प्रमाणित किया जाता है कि इस मशीन पुस्तक में ग्रामीणों
 के द्वारा अंकित कुल 100 एड रोजें पंक्तों हैं यह मशीन
 पुस्तक की अंतिम प्रतिलिपि है यह पुस्तक अग्रिमता ग्रामीण
 बांधी विभाग बांधी उत्तर प्रमण्डल कार्यालय में निहित
 किया जाता है

03/08/20
 कार्यपालक अभियन्ता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमण्डल, मधुबनी
 03/08/20

Sch. XLV-Form No. 134

ग्रामीण बांधी विभाग बांधी प्रमण्डल मधुबनी DIVISION
 ग्रामीण बांधी विभाग बांधी उत्तर प्रमण्डल SUB-DIVISION
 मधुबनी

Measurement Book

No. 2271

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Named work:-					
Agency:-					
Agreement No:-					
Agreement rate:-					
D.O.S:-					

D.O.C:- 28-06-2021

Recorded on

(1) pro. Setting out pillars 4.00 nos.

(2) pro. & fixing logs of 1707657 Sign board - 2.00 nos.

(3) pro. cleaning & grubbing the Road Land - 4.00 nos.

9 Nos 30.00 3.50 = 945.00 m²6 Nos 30.00 3.50 = 630.00 m²1575.00 m²

⇒ 0.158 Hect.

(4) pro. Dismantling of existing standards - 4.00 nos.

Continuation

21
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
		B/F		MGS 33=10
		Qty. made TMB PWD 17		
		2.43 m^3	$CM 406 = 83/m^3$	$M 989 = 10$
5/5 Removing all type of tunnel pipe.		Qty. made TMB PWD 17		
		15 m^3	$CM 234 = 34/m$	$M 3545 = 10$
6/6 Const. of embankment		Qty. made TMB PWD 17		
(i) Lead up to 100 m				
		2510.94 m^3		
		$CM 175 = 22/m^3$		$M 89527 = 10$
(ii) Lead up to 150 m				
		2043.76 m^3		
		$CM 140 = 13/m^3$		$M 286392 = 10$
7/8 Construction of C.S.B.		Qty. made TMB PWD 17		
		780.30 m^3		
		$CM 303 = 06/m^3$		$M 2365136 = 10$
8/8 Providing & fixing H.W.S.		information board		
		Qty. made TMB PWD 17		
		2 m^3	$CM 10699 = 72 \text{ each}$	$M 21399 = 10$
9/9 Flow in excavation in		founder for str.		
		Qty. made TMB PWD 18		
		89.40 m^3		

Continuation

$CM 267 = 32/m^3$ $M 24077 = 10$
 $C/A = 28,51,998 = 10$

22
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	D.
		BIF		28,51993 = u
10/20 Provisional Rec. H. 15 m				
Open ground				
Qty. Vol. D. TMB Pmb 18				
13.80 m ³				
55.56742 5.5/m ³				578309 = u
11/21 Provisional Rec. Main Substr.				
Qty. Vol. TMB Pmb 18				
= 101133 m ³				
55.6450 = 08/m ³				5652316 =
12/22 Provisional Rec. Main Substr.				

Qty. Vol. TMB Pmb 18				
22.50 m ³	53870 = 64/m			587091 = u
				536,69,714 = u
Add 12% GST				5440366 = u
Add 1% cess				536697 = u
Add S. Fee				523,444 = u
				541,70,221 = u
Less 02.81% below				51,17,183 = u
				5340,53,038 = u
Debit previous				
Payment				535,43,586 = u
				509,452 = u only
27/4/23				
T.E.				

Continuation